

14.07.18

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF GPI TEXTILES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of Corporate Debtor	GPI Textiles Limited
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	29th September 2000
3. Authority under which Corporate Debtor is Incorporated / Registered	Registrar of Companies, Himachal Pradesh under the Companies Act, 1956
4. Corporate identity number / limited liability identification number of Corporate Debtor	CIN: U17117HP2000PLC026391
5. Address of the registered office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor	REGD. OFFICE: Bharat Garh Road, Nalagarh, Distt. Solan Himachal Pradesh-174101 WORKS: Bharat Garh Road, Nalagarh, Distt. Solan Himachal Pradesh-174101
6. Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	6th July 2018
7. Estimated date of Closure of Insolvency Resolution Process	1st January 2019 (180th days from the date of commencement of Insolvency Resolution Process)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Jalesh Kumar Grover IBBI/PA-001/PP-00200/2017-18/10390
9. Address and E-mail of the Interim Resolution Professional, as registered with the board	Address: SCO 131, 2nd Floor, Sector 5, MDC Panchkula, Haryana - 134114 Email - Jk.grover27@gmail.com (For correspondence please refer below)
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address - SCO 131, 2nd Floor, Sector 5, MDC Panchkula, Haryana - 134114 Email: ip.gpitextiles@ducturus.com
11. Last date for submission of claims	26.07.2018 (IRP appointed on 12.07.2018. Order received on 13.07.2018)
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class (es) - NIL
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. NA 2. NA 3. NA
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: http://bbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: SCO 131, 2nd Floor, Sector 5, MDC Panchkula, Haryana-134114

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the GPI Textiles Limited on 06.07.2018.

The creditors of GPI Textiles Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 26.07.2018 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA.

The submission of proof of claims should be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms along with documentary proof in support of their claims:

Form B - For claims by Operational Creditors (except Workmen and employees)

Form C - For Claims by Financial Creditors

Form CA - For Claims by Financial Creditors in a Class

Form D - For Claims by a workman and employee

Form E - For Claims by Authorized Representative of Workmen and Employees

Form F - For Claims by creditors other than financial creditors and operational creditors
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-

Jalesh Kumar Grover

(Interim Resolution Professional)

Date: 13.07.2018

Place: Panchkula



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

Regional Office :
73, Hazratganj,
Lucknow

E-Auction
NOTICE

Sale of Movable/Immovable Property/ies mortgaged to Bank Under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

Public in general informed that Central Bank of India has taken possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on date mentioned against account in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues. The undersigned in exercise of Power conferred under section 13(12) of the said Act, proposes to realize the Bank's dues by the sale of the said property/ies. The E-Auction will be held on 23.08.2018 between 11:00AM to 01:00PM at Central Bank of India, Regional Office, Hazratganj, Lucknow.

S/ no	Name of the Borrower/ Guarantor/ Owner of the Property/ Amount u/s (as mentioned in the Notice u/s 13(2))	Description of the mortgaged Movable/Immovable Property (All the part and parcel of the property consisting of)	Date of Demand Notice Date of Possession Notice	Reserve Price Earnest Money
Branch: Raebareilly, Ph: 0525-2210247 Mob: 8795819429				
1.	Borrower-National Traders Owner of Property: Mohd Shafiq S/o Md Hanif. Amount: Rs. 16.43 Lakh + intt & Other Charges.	Land/Plot situated at village Akhtiarpur, Pargana & Tehsil Sadar Dist- Raebareilly, Gata No. 409/1/233 Hect (1193.25 Sq. Ft.). Boundaries: East-Kachha Rasta 7 feet, West-Land of Seller, North-Land of seller, South-Road	02.07.2016	Rs. 17.68 Lakh
2.	Borrower-Aruna Singh Owner of Property: Aruna Singh D/o Dharmendra Singh Amount: Rs. 6.71 Lakh + intt & Other Charges.	Land/Plot situated at Village Jamalpur Rampur Raebareilly, one Kita plot measuring 238.08 Sqmtr. Boundaries: East-House/Shop of Subhash Chandra, West-Agriculture Land of Matadeen, North-RBL Sultanpur Road, South-Balance Land of Plot Sold.	29.05.2018 25.10.2017 29.05.2018	Rs. 1.76 Lakh Rs. 7.8 Lakh Rs. 0.78 Lakh
3.	Borrower-M/s Sri Ram Traders, Prop-Nirbhay Kumar Kausal, Owner of the property Mr Nirbhay Kumar Kausal Amount: Rs. 12.13 Lakh + intt & Other Charges.	1. Land/Plot having Dimension East to west 47 feet, North to South 27 feet at Fursatganj Majare Brahmani Dist- Raebareilly, Area 118 Sq mtr. Boundaries: East-Kharanja Nali, West-House of Ved Prakash, North-Road, South-House prem Shankar. 2. Land/Plot having Dimension East to west 10 feet, North to South 14 feet at Fursatganj Majare Brahmani Dist- Raebareilly, Area 13.02 Sq mtr. Boundaries: East-House of Pawan Kumar, West-RCC Road, North-Galiyara of Vinay South-House of Anand Kaushal.	1.12.2016 29.05.2018	1. Rs. 7.68 lakh Rs. 0.76 Lakh 2. Rs. 5.53 Lakh Rs. 0.55 Lakh
Branch: Cantt Road, Distt. Lucknow Ph: 0522-2612766, Mob.-9918002165				
4.	Borrower-Mohd Halim S/o Mohd Wassem & Mohd Faheem S/o Mohd Wassem. Owner of the property-Mohd Haleem. Amount: Rs. 13.8 Lakh + intt & Other Charges.	Property Residential Property No. 631/343/3 Panigaon Colony Ehsan Nagar, Indira Nagar Pargana Tehsil & distt. Lucknow Area 1000 Sq feet. Boundaries: East-House of Pandit Jil West-House of Ujjal Beg, North-House of Deegar Shakash, South-10 Feet Wide Road.	06.10.2016 29.05.2018	Rs. 32.77 Lakh Rs. 3.27 Lakh
Branch: Subhash Marg, Distt. Lucknow Ph: 0522-2265230 Mob.- 8795819426				
5.	Borrower-Sri Kamal Singh S/o Sri Kripal Singh. Owner of the property-Sri Kamal Singh. Amount: Rs. 9.71 Lakh + intt & Other Charges.	Property on Khasra No. 517, Plot No 14 Ganeshpur, Rahmanpur, Lucknow Area 1050 Sq feet. Boundaries: East-plot, West-20 feet Road, North-Plot No-13A, South-Plot No. 15	05.11.2011 12.01.2012	Rs. 19.09 Lakh Rs. 1.9 Lakh
6.	Borrower-Krishna Nand Singh Owner of the property-Krishna Nand Singh. Amount: Rs. 9.57 Lakh + intt & Other Charges.	Property on Khasra No 503, Plot No. 11, Ganeshpur Rahmanpur, Lucknow Area 97.58 Sq.mtr. but as per physical measurement 81.32 Sq Mt. Boundaries: East-12 ft. road, West-Plot No 7 North-Plot No 10 South-Plot No-12	05.11.2011 13.09.2012	Rs. 9.30 Lakh Rs. 0.93 Lakh

TERMS & CONDITIONS OF E-AUCTION ARE AS UNDER: (1). E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS BASIS and AS IS WHAT IS BASIS" (2) The E-Auction will take place through portal <https://www.bankeauctions.com> on 23.08.2018 between 11:00AM to 1:00PM (Unlimited auto extension of 5 minutes each) schedule time may be extended by the authorised Officer. (3). For detailed procedure and terms and conditions of E-Auction, interested bidders may visit <https://www.bankeauctions.com> and download relevant documents. Interested bidders may also get in touch with service provider on below mentioned contact numbers. (4). For the reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorized Officer to cancel the Auction proceeding for any reason and return the EMD submitted and Bank would not entertain any claim or representation in that regard from the bidders. (5). The intending purchaser/bidder is required to submit amount of EMD by way of demand draft/pay order drawn in favour of Central Bank of India, related branch drawn on any Nationalized or Scheduled Bank in Lucknow/concerned district by 1.00 PM on or before 21.08.2018 and register their name at: <https://www.bankeauctions.com> and get user ID and password free of cost and get training on E-Auction from M/s. C1 India Pvt. Ltd, Plot No. 301, 1st floor, Udyog Vihar Phase-2, Gurgaon, Haryana 122012 helpline No. +91-124-4302020/21/ 22/23/24, Rajendra Rawat Cell No. +91 9451591011, Email : Support@bankeauctions.com. Cheques will not be accepted for EMD. (6). The said EMD shall be adjusted in the case of highest bid. The earnest money deposit will not carry any interest. (7). The sale shall be confirmed in favour of the purchaser who has offered the highest sale price during Auction and shall be subject to confirmation by the bank. (8). The purchaser shall deposit 25% of the amount of sale price after excluding the Earnest Money Deposit immediately on acceptance of highest bid by the Authorized Officer in respect of sale, failing which the earnest money deposit shall be forfeited. (9). The Balance 65% of the sale price shall be paid by the purchaser on or before 15th day (during banking hours) of confirmation of sale by the Authorized Officer. This time may be extended on the request of purchaser as per rule. (10). In Default of payment of sale price or any part thereof within the period(s) mentioned herein above. The deposit(s) shall be forfeited and the defaulting purchaser shall lose all the claims to the property or any of the sum for which it may be subsequently sold. (11) The Authorised Officer is not bound to accept the highest bid or any or all bids and reserves the right to accept or reject any or all the bids without assigning any reason thereof. (12) To the best of Knowledge and information of the Authorised Officer there is no encumbrance on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrance, title of property/ies put on auction and claims/rights/dues/affecting the property, prior to submitting their bid. (13). The successful purchaser would bear all the charges/fees payable for conveyance such as stamp duty, registration fee, etc. as applicable as per law of Government of India and State of Uttar Pradesh and other Authorities. (14) All persons participating in the E-Auction should upload and submit his/her sufficient and acceptable proof of his/her identity, residence and authority and also PAN/TAN Cards etc. (15) The Authorised Officer will not be held responsible for any power dues, water and property tax or any other dues to the Government or any other body, corporate in respect of property under sales. (16) The property is being sold with all the existing and future encumbrances whatever known or unknown to the Bank. The authorised Officers/ Secured creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. (17). It shall be responsibility of the interested bidders to inspect and satisfy themselves about the property/ies before submission of the bid. (18). The sale shall be subject of rules/ conditions prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. (19). The intending bidders may contact the respective Branch Manager respect to inspection of property/documents on any working day between 11.00AM to 2.00PM by taking prior appointment upto 20.08.2018. Further details can be obtained from the Authorised Officer, Central Bank of India, Regional Office, Hazratganj, Lucknow.

Note: For details please visit <https://www.bankeauctions.com>

Date: 13.07.2018, Place:- Lucknow

Authorised Officer, Central Bank of India

IMMERCE

08530, 26108531 Email : rrf.7219@obc.co.in

E-AUCTION
SALE
NOTICE

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

RACPC, GURGAON Branch, PLOT NO.3 & 4 UDYOG VIHAR, PHASE-IV GURGAON

